

## B.A.G. Films and Media Limited

"CIN: L74899DL1993PLC051841" FC-23, Sector 16A, Film City, Noida 201 301

Tel.: 0120 4602424 | Fax: 0120 3911401 Mail: info@bagnetwork.in

www.bagnetwork24.in

BAG/STX/letters/2022-23/AM/1205 August 6, 2022

To, The Listing Compliance Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051

To, The Listing Department BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400 001

**NSE-SYMBOL: BAGFILMS** 

BSE-Scrip Code: 532507

Sub: Newspaper Advertisement - 29th Annual General Meeting of the Company through Video Conferencing ('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM'), E-voting and **Book Closure Intimation** 

Dear Sir/Madam

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III and Regulation 42 and 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, and in compliance with Section 91 and 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and MCA Circular dated May 5, 2020 read with General Circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020, Circular dated January 13, 2021, Circular dated 14th December, 2021 and Circular dated 5th May 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circulars dated May 12, 2020, dated January 15, 2021, and dated 13th May, 2022, please find attached herewith the copies of newspaper advertisements published in the Business Standard-English and Business Standard-Hindi edition dated August 6, 2022, for giving Notice of the 29th Annual General Meeting (AGM) of Members of the Company scheduled to be held on Monday, August 29, 2022, at 4:30 P.M. (IST) through Video Conferencing('VC')/Other Audio Visual Means ('OAVM') including e-voting details and Book Closure information for the purpose of AGM.

You are requested to take the same on your record.

Thanking You

Yours sincerely

For B.A.G. Films and Media Cimited

(Rajeev Parashar) **Company Secretary & Compliance Officer** 

Encl: a/a















### Email-id: investors.mcl@mycem.in; Website: www.mycemco.com NOTICE

. Notice of AGM: Notice is hereby given that in view of risk of COVID-19 pandemic, the 63<sup>rd</sup> Annual General Meeting of the Members of the Company will be held at 11.00 A.M. on Thursday, the 08 September 2022 through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, without the physical presence of the Members at a common venue, in compliance with relevant circulars issued by the Ministry of Corporate

The Annual Report for the financial year 2021-22, comprising the Notice of the AGM and the financial statements for the financial year ended 31 March 2022, along with Board's Report, Auditors' Report and other documents required to be attached thereto, will be sent only through email to the members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). Members may note that the Notice of the AGM and Annual Report 2021-22 will also be available on the Company's website www.mycemco.com and websites of Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM are provided in the Notice of the AGM Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to its Members to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting") Detailed procedure for remote e-voting / e-voting is provided in the Notice of AGM. If your email-id is already registered with the Company or Depository Participant(s), login details for e-voting will be sent shortly on your registered email address.

In case you have not registered your email address with the Company/Depository Participant(s), please follow below instructions to register your email-id for obtaining sof copy of Annual Report and login details for e-voting:

Physical holding | Send a request to the RTA at <a href="mailto:irg@integratedindia.in">irg@integratedindia.in</a> providing Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address along with duly filled Form ISR-1 prescribed by SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD\_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated 03

Following additional details may be provided in case you wish to update details of your bank account for facilitating direct credit of Dividend for FY2021-22 in your bank account:

- a) Name of the Bank and branch address.
- b) Type of Bank Account.

Place : Gurugram

- c) Bank Account Number after implementation of Core Banking Solution.
- d) 9 digit MICR Code Number.
- 11 digit IFSC Code. f) Scanned copy of a cancelled cheque bearing the name of the first

Please contact your Depository Participant (DP) for registering your Demat holding email address and updating bank account details in your demat account, as per the procedure advised by your DP. Record Date for AGM and Dividend: The Company has fixed Thursday, 01 September

2022 as the "Record Date" for the purpose of determining the members entitled to attend the AGM and receive dividend of Rs. 9 per Equity Share of Rs. 10 each (i.e., 90%) for the financial year 2021-22. The dividend on equity shares, if declared, at the AGM will be paid to the members within thirty days from the date of AGM. Members may note that the Income Tax Act, 1961 ('the Act'), as amended by the Finance

Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by a Company after 01 April 2020 shall be taxable in the hands of the Members. The Company will therefore deduct Tax at Source (TDS) at the time of making payment of dividend. In order to enable us to determine the appropriate TDS rate, as applicable, Members are requested to submit requisite documents in accordance with the provisions of the Act.

> For HeidelbergCement India Limited Raiesh Relar Legal Head & Company Secretary

# WINDOW GLASS LIMITED

Registered Office: E-2/3, Gillander House, 8 Netaii Subhas Road, Kolkata-700001

CIN: L26109WB1960PLC024873 EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS

|   |  | (Rs. in Lakhs except as stat                |   |   |                                       |  |  |
|---|--|---|---|---|---------------------------------------|--|--|
|   | Particulars  | Quarter<br>Ended<br>30.06.2022<br>Unaudited | Quarter<br>Ended<br>31.03.2022<br>Audited | Quarter<br>Ended<br>30.06.2021<br>Unaudited | Year<br>Ended<br>31.03.202<br>Audited |  |  |
| 1 | Total Income from Operations   | 19.90                                       | 10.82                                     | 21.16                                       | 51.27                                 |  |  |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period   |   |   |   |                                       |  |  |
|   | before tax and, Exceptional items  | -13.00                                      | -21.95                                    | -3.86                                       | -72.83                                |  |  |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax and after Exceptional  |   |   |   |                                       |  |  |
|   | items  | -13.00                                      | -21.95                                    | -3.86                                       | -72.83                                |  |  |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax   | -13.68                                      | -21.32                                    | -3.19                                       | -71.18                                |  |  |
| 5 | Total Comprehensive Income<br>for the period (Comprising<br>Profit for the period (after tax)<br>and Other Comprehensive |   |   |   |                                       |  |  |
|   | Income (after tax)   | -13.92                                      | -22.64                                    | -3.07                                       | -72.1                                 |  |  |
| 6 | Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/- per Equity Share)   | 69.77                                       | 69.77                                     | 69.77                                       | 69.7                                  |  |  |
| 7 | Other Equity excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet  | -   | -   | _   | 308.6                                 |  |  |
| 8 | Basic and Diluted Earnings Per Share (of Rs.10/- each ) (Not Annualized) Earning per Share                               |   |   |   |                                       |  |  |
|   | - Basic (In Rs.)<br>- Diluted (In Rs.)   | -1.96<br>-1.96                              | -3.06<br>-3.06                            | -0.46<br>-0.46                              | -10.2<br>-10.2                        |  |  |

- A The above is an extract of detailed format of Quarterly Financial Results, filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI Circular dated 5th July'2016. The full format of the said Quarterly Financial Results are available on the Company's website (http://www.windowglass.biz) and has been sent to The Calcutta Stock Exchange Limited.
- B The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 5th August' 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the Results.
- C The production process of the Company remains suspended since 4th April' 2001.
- D The Company is engaged in single segment product i.e. Glass & Glass wares as such compliance in term of Indian Accounting Standard Operating Segments' (Ind AS - 108) is not applicable.
- E The figures for the quarter ended 31st March' 2022 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and the year to date figures up to the third guarter of the financial year.
- The figures for the corresponding previous periods have been restated regrouped wherever necessary, to make them comparable

For Window Glass Limited **Board of Directors** 

P. K. Kheruka Director Place : Mumbai (DIN-00016909) Date : 05.08.2022

# BAG B.A.G. Films and Media Limited CIN: L74899DL1993PLC051841 Regd. Office: 352, Aggarwal Plaza, Plot No.8, Kondli, New Delhi-110096

Corporate Office: FC-23, Film City, Sector-16A, Noida-201301, (U.P.) Tel: 91 120 460 2424, Fax No. 91 120 3911 401
Web: www.bagnetwork24.in, Mail: info@bagnetwork.in

### NOTICE OF 29<sup>™</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE INTIMATION

NOTICE is hereby given that the 29th Annual General Meeting of Members ("AGM") or B.A.G. Films and Media Limited ("the Company") will be held on Monday, August 29, 2022 at 4:30 P.M. (IST) through Video Conferencing("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with General Circular No. 14/2020 dated 8" April, 2020, Circular No. 17/2020 dated 13" April, 2020, Circular No. 20/2020 dated 5" May, 2020, Circular No. 02/2021 dated 13" January, 2021, Circular No. 21/2021 dated 14" December, 2021 and 02/2022 dated 5th May 2022 (collectively referred to as "MCA Circulars' prescribed the procedures and manner of conducting the Annual General Meetin through VC/OVAM. Further, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") vide it Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and Circular No. SEBI/HO/DDHS/P/CIR/ 2022/0063 dated 13<sup>th</sup>May, 2022 (**"SEBI Circulars"**) has also granted certain relaxations to transact the business as set out in the Notice for convening the 29th AGM.

n compliance with said MCA Circulars and SEBI Circulars, electronic copies of the Notice of 29th AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 of the Company has been send to all the Members on August 4, 2022, whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories. The same are also available on the Company's websitewww.bagnetwork24.in, website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at <a href="https://www.bseindia.com">www.nseindia.com</a> and <a href="www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> respectively and also available on the website of NSDL at <a href="www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>. Pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rules made

hereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, the Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain closed from Tuesday, August 23, 2022 to Monday, August 29, 2022 (both days inclusive) for the said AGM. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements

Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as se forth in the Notice of 29<sup>th</sup>AGM using electronic voting system (e-voting) provided by NSDL The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them ir the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Monday

Detailed procedure for remote e-voting/e-voting and to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL is provided in the Notice of the AGM. The Members are requested to read the instructions pertaining to e-voting/ AGM through VC/OAVM as described in the Notice of AGM carefully. All Members are informed that:

- . The businesses as stated in the Notice of 29th AGM will be transacted by electronic means through e-voting platform of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com:
- The remote e-voting shall commence on Thursday, August 25, 2022 at 9:00 am (IST) and ends on Sunday, August 28, 2022 at 5:00 pm (IST);
- The Cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means (remote E-voting before the AGM as well as E-voting during the AGM) is Monday, August 22,
- A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote E-voting before the AGM as well as E-voting during the AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes Member of the Company after the sending of the Notice and holding shares as on the cut-off date i.e. Monday, August 22, 2022, may obtain the User ID and Password by sending a request at <a href="mailto:evolung.evolung.nc.lin.">evolung.evolun with NSDL for e-voting, then existing user ID and password can be used for casting vote 5. Members present in the AGM through VC/OAVM facility and who had not cast their
- votes on the resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM; Member may note that:
- (a) The remote e-voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for e-voting and the remote e-voting shall not be allowed beyond the
- (b) Once the vote on a resolution is cast by the members, they shall not be allowed to change it subsequently;
- (c) The facility for electronic voting shall be made available at the AGM for the members who have not cast their votes by remote e-voting; (d) Members who have cast their vote on resolution(s) by remote E-voting prior to the

AGM will also be eligible to participate in the AGM through VC/OAVM but shall no be entitled to cast their vote on such resolution(s) again. The relevant documents referred to in this Notice are available for inspection by the Members through electronic mode. The Members may write to the Company a info@bagnetwork.in in this regard, by mentioning "Request for Inspection" in the subjec

Any query / concern / grievances connected with voting/AGM by electronic means, if any may be addressed to the Company by writing to Mr. Rajeev Parashar, Company Secretary-B.A.G. Films and Media Limited, at the Registered Office/Corporate Office of the Company through email at info@bagnetwork.in. or call at Tel: +91 120 460 2424.

M/s Balika Sharma & Associates, Practicing Company Secretary, New Delhi (Membership No. FCS 4816 and COP No. 3222) has been appointed as the Scrutinizer by the Board of Directors for providing facility to the Members of the Company to scrutinize the remote e-voting process before the AGM as well as remote e-voting during the AGM ir a fair and transparent manner.

In case you have any queries, /grievances pertaining to remote e-voting (before the AGM and during the AGM), you may refer to the Frequently Asked Questions ('FAQs') for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available in the download section of www.evoting.nsdl.com or call on the toll-free number: 1800-222-990/1800 224 430 or contact Ms. Soni Singh, Assistant Manager-NSDL at evoting@nsdl.co.in.

Place: Noida

By Order of the Board of Directors For B. A. G. Films and Media Limited



CIN: L74999MH1995PLC085878 Registered office: "Solar" House, 14, Kachimet Amravati Road, Nagpur - 440023, Maharashtro Phone : 0712-6634567 Fax: 0712-6634578/79 E-mail: investor.relations@solargroup.com

LIMITED Notice for Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

The notice is hereby given to the shareholders of the Company that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Investor Education and Protection Fund (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more have to be transferred in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority.

Adhering to the various requirements set out in the rules, the Company has communicated individually the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the financial year 2022-23 for taking appropriate action.

Further, in terms of Rule 6 (3) of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the statement containing full details of shareholders and shares due for transfer to IEPF Authority is made available at our website www.solargroup.com for information and necessary action by the shareholders

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholder(s) by October 29, 2022, the Company shall, with a view to complying with the requirements set out in the Rules transfer the dematerialised shares to IEPF Authority by way of Corporate Action by the due date as per procedure stipulated in the Rules. The Company does not have any case of Physical Shares Transfer to IEPF Authority.

Shareholders may note that, both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed under the Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and Rules, they may contact to Mrs. Khushboo Pasari, Company Secretary & Compliance Officer of Solar Industries India Limited at Tel: 0712-6635555 & E-mail id: <a href="mailto:investor.relations@solargroup.com">investor.relations@solargroup.com</a> or contact our Registrar and Transfer Agents M/s. Link Intime India Pvt Ltd., C 101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083. Tel No.: (022) 49186000, e-mail: rnt.helpdesk@linkintime.co.in or iepf.shares@linkintime.co.in.

By order of the Board of Directors

Khushboo Pasari Company Secretary 8 Compliance Office

debtor is incorporated / registered RoC-Kolkata Corporate identity number / limited liability 1130007WB1994PTC061998 dentification number of corporate debtor REGISTERED ADDRESS: 9 EZRA STREET, TOP Address of the registered office and orincipal office (if any) of corporate debtor FLOOR - ROOM NO 47, KOLKATA - 70000 Affairs ("MCA") and SEBI. of the corporate debtor Date of invitation of expression of interest Eligibility for resolution applicants under Can be obtained by sending e-mail at ection 25(2)(h) of the Code is available at: subhlaxmicompusis.cirp@gmail.com lorms of ineligibility applicable unde Can be obtained by sending e-mail at section 29A are available at: subhlaxmicompusis.cirp@gmail.com Last date for receipt of expression of interes Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants ast date for submission of bjections to provisional list 13/09/2022 Date of issue of final list of prospective resolution applicants 23/09/2022 Date of issue of information memorandur evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants 13/09/2022 The Resolution professional will share the request fo Manner of obtaining request for resolution olan, evaluation matrix, information resolution plan/ evaluation Matrix/ Informatio emorandum and further information Memorandum in the electronic form after verification of KYC. capacity to invest, capability to manage and eligibility under section 29A of IBC, 2016 and pre-qualification criteria, if an approved by COC Manner of submitting resolution By Speed / Registered Post or e-mail at address plans to resolution professional mentioned at point no. 21 Estimated date for submission of resolution 19/11/2022 plan to the Adjudicating Authority for approval the resolution professional Registration No. IBBI/IPA-001/IP-P-02432/2021-2022/13710 Name, Address and e-email of the resolution ofessional, as registered with the Board 190A, Maniktalla Main Road, 2nd Floor, Kankurgachi, Kolkat West Bengal,700054 Email - caamit.patni@gmail.com AAA Insolvency Professionals LLP Kolkata Office-Mousumi Co. Op. Housing Society, 15B, Ballygunge Circular Road, Kolkata-700019 Email – subhlaxmicompusis.cirp@gmail.com Can be obtained by sending e-mail a 22. Further Details are available at or with subhlaxmicompusis.cirp@gmail.com 23. Date of publication of Form G Mr. AMIT PATNI Reg No.: IBBI/IPA-001/IPP-02432/2021-2022/13710 190A. Maniktalla Main Road, 2nd Floor, Kankurgachi, Kolkata West Bengal-700054 For Subhlaxmi Compusis Pvt. Ltd. Date: 06/08/2022

FORM G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

[Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

RELEVANT PARTICULARS

28/02/1994

SUBHLAXMI COMP

Name of the corporate debtor

Date of incorporation of corporate debtor

# **emam**<sup>†</sup>

Place : Naapur

Date: 05.08.2022

# emami paper mills limited

Registered Office: 687, Anandapur, 1st Floor, E.M Bypass, Kolkata - 700107,

Phone No. 033 6613 6264, Website: www.emamipaper.in, Email: investor.relations@emamipaper.com

# Financial results for the quarter ended 30th June 2022

|  |                           | Quarter Ended           |                           |                         |  |
|--|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| Particulars  | 30.06.2022<br>(Unaudited) | 31.03.2022<br>(Audited) | 30.06.2021<br>(Unaudited) | 31.03.2022<br>(Audited) |  |
| Total Income from operations (Net)   | 598.07                    | 568.81                  | 428.91                    | 1,957.71                |  |
| Earning before Interest, Depreciation and Tax (EBITDA)                       | 110.33                    | 100.83                  | 85.67                     | 322.08                  |  |
| Net Profit/(loss) for the period (before exceptional items and tax)          | 71.80                     | 54.04                   | 43.91                     | 159.33                  |  |
| Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)        | 71.80                     | 48.10                   | 43.91                     | 153.39                  |  |
| Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items and tax) | 54.00                     | 36.68                   | 31.99                     | 114.80                  |  |
| Total Comprehensive Income for the period (after tax)                        | 51.38                     | 28.25                   | 39.37                     | 113.63                  |  |
| Paid up Equity Share Capital (Face value ₹ 2/- each)                         | 12.10                     | 12.10                   | 12.10                     | 12.10                   |  |
| Convertible preference shares  |                           |                         |                           | 243.52                  |  |
| Other equity   |                           |                         |                           | 397.40                  |  |
| Earnings Per share (of ₹ 2 each)   |                           |                         |                           |                         |  |
| Basic (₹)  | 8.72                      | 5.86                    | 5.09                      | 18.17                   |  |
| Diluted (₹)  | 6.80                      | 4.62                    | 4.03                      | 14.45                   |  |

Dated: 5th August, 2022

Place: Kolkata

The above is the extract of the detailed format of Quarterly/Yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter/Year end Financial Results are available on the website of BSE at www bseindia com, on the website of National Stock Exchange of India at www pseindia com and on the website of the Company at www.emamipaper.in

For and on behalf of the Board Vivek Chawla Whole-time Director and CEO DIN - 02696336



# **Graphite India Limited**

Regd. Office: 31, Chowringhee Road, Kolkata - 700 016 Telephone No: 91 33 40029600; Fax No: 91 33 40029676 Email Id: gilro@graphiteindia.com; Website: www.graphiteindia.com CIN: L10101WB1974PLC094602

# Extract of Financial Results for the guarter ended 30th June, 2022

(₹ in Crores)

|     |  |                    | Standalone          |                    | Consolidated       |                     |                    |  |
|-----|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--|
| SI. | Dantiaulaus  | Quarter ended      | Year ended          | Quarter ended      | Quarter ended      | Year ended          | Quarter ended      |  |
| No. |  | 30th June,<br>2022 | 31st March,<br>2022 | 30th June,<br>2021 | 30th June,<br>2022 | 31st March,<br>2022 | 30th June,<br>2021 |  |
|     |  | (Unaudited)        | (Audited)           | (Unaudited)        | (Unaudited)        | (Audited)           | (Unaudited)        |  |
| 1   | Total Income from Operations   | 820                | 3,078               | 619                | 897                | 3,320               | 688                |  |
| 2   | Net Profit/(Loss) for the period/year<br>(before tax, Exceptional and/or<br>Extraordinary items)   | 84                 | 753                 | 199                | 43                 | 693                 | 197                |  |
| 3   | Net Profit/(Loss) for the period/year<br>before tax (after Exceptional and/or<br>Extraordinary items)  | 84                 | 753                 | 199                | 43                 | 693                 | 197                |  |
| 4   | Net Profit/(Loss) for the period/year<br>after tax (after Exceptional and/or<br>Extraordinary items)   | 63                 | 574                 | 157                | 24                 | 505                 | 150                |  |
| 5   | Total Comprehensive Income for the period/year [Comprising Profit/(Loss) for the period/year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] | 63                 | 577                 | 156                | 20                 | 503                 | 162                |  |
| 6   | Equity Share Capital   | 39                 | 39                  | 39                 | 39                 | 39                  | 39                 |  |
| 7   | Other Equity   | 33                 | 4,448               | 33                 | 03                 | 4,908               | 39                 |  |
| 8   | Earnings/(Loss) Per Share (EPS)<br>(of ₹ 2/- each)   | -                  | 4,440               | -                  | -                  | 4,500               |                    |  |
|     | Basic EPS (₹)  | 3.26               | 29.39               | 8.03               | 1.23               | 25.82               | 7.70               |  |
|     | Diluted EPS (₹)  | 3.26               | 29.39               | 8.03               | 1.23               | 25.82               | 7.70               |  |

The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as modified by circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated 5th July, 2016. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com/ www.bseindia.com) and on the Company's website (www.graphiteindia.com).

> By Order of the Board For Graphite India Limited K. K. Bangur Chairman

Reliance

Regd.office: 3rd Floor, Maker Chambers IV. 222. Nariman Point. Mumbai - 400 021 Phone: 022-3555 5000. Email: investor: relation CIN: L17110MH1973PLC019786

NOTICE

NOTICE is hereby given that the following certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue to have been lost or misplaced and Registered Holders thereof have applied for the issue to have a proper had a supplied for the issue to have a proper had a supplied for the issue to have a proper had a supplied for the issue to have a proper had a supplied for the issue to have a proper had a supplied for the issue to have a proper had a supplied for the issue to have a proper had a supplied for the issue to have a proper had a supplied for the issue to have a proper had a supplied for the had a proper had a supplied for the had a proper had a supplied for the had a supplied for the had a proper had a supplied for the haof duplicate certificate(s). Name / Joint Names Shares Certificate Nos. From - To Folio No.

| _ | 50669408 | Manohar Lal Bahal             | 196  | 66484853-853                 | 6859934978-173                 |
|---|----------|-------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------|
| 2 | 84939081 | Nancy Ghanshyam               | 48   | 51369961-962                 | 1176467966-013                 |
|   |          | Thakkar                       | 20   | 59684321-321                 | 59747219-238                   |
|   |          |                               | 9    | 59684322-322                 | 144136768-776                  |
|   |          |                               | 10   | 59684323-323                 | 186736376-385                  |
|   |          |                               | 7    | 59684324-324                 | 256938809-815                  |
|   |          |                               | 2    | 59684325-326                 | 330162620-621                  |
|   |          |                               | 96   | 62426415-415                 | 2204530777-872                 |
|   |          |                               | 192  | 66676193-193                 | 6877072169-360                 |
| 3 | 84939099 | Nancy Ghanshyam               | 16   | 51244826-826                 | 1173960545-560                 |
| • | 01/3/0// | Thakkar                       | 5    | 59684327-327                 | 51315578-582                   |
|   |          | Ghanshyam Kantilal            | 4    | 59684328-328                 | 88647697-700                   |
|   |          | Thakkar                       | 4    | 59684329-329                 | 140084439-442                  |
|   |          |                               | 10   |                              |                                |
|   |          | Smitaben Ghanshyam<br>Thakkar | 4    | 59684330-330<br>59684331-331 | 186724482-491<br>256935301-304 |
|   |          | Тпаккаг                       | 4    | 59684332-335                 | 293161564-567                  |
|   |          |                               |      |                              |                                |
|   |          |                               | 2    | 59684336-337                 | 330162223-224                  |
|   |          |                               | 17   | 59684338-338                 | 1173960528-544                 |
|   |          |                               | 66   | 62426213-213                 | 2204508100-165                 |
|   |          |                               | 132  | 66675944-944                 | 6877044627-758                 |
| 4 | 21446165 | Rani V Agarwal                | 5    | 9142682-682                  | 17194162-166                   |
|   |          |                               | 11   | 9142682-682                  | 25291648-658                   |
|   |          |                               | 10   | 9142682-682                  | 49246898-907                   |
|   |          |                               | 15   | 9142682-682                  | 135320990-004                  |
|   |          |                               | 9    | 9142682-682                  | 146702590-598                  |
|   |          |                               | 14   | 9142683-683                  | 43212258-271                   |
|   |          |                               | 5    | 9142683-683                  | 49679913-917                   |
|   |          |                               | - 1  | 9142683-683                  | 53580139-139                   |
|   |          |                               | 7    | 9142683-683                  | 131757706-712                  |
|   |          |                               | 5    | 9142683-683                  | 142457402-406                  |
|   |          |                               | 9    | 9142683-683                  | 146467606-614                  |
|   |          |                               | 9    | 9142683-683                  | 146557348-356                  |
|   |          |                               | 4    | 9144381-381                  | 48772918-921                   |
|   |          |                               | 40   | 9144381-381                  | 71331159-198                   |
|   |          |                               | 6    | 9144381-381                  | 147324459-464                  |
|   |          |                               | 6    | 9144382-382                  | 48772922-927                   |
|   |          |                               | 4    | 9144382-382                  | 64963539-542                   |
|   |          |                               | 40   | 9144382-382                  | 77286793-832                   |
|   |          |                               | 36   | 9144383-383                  | 64963543-578                   |
|   |          |                               | 4    | 9144383-383                  |                                |
|   |          |                               | 10   |                              | 142612391-394                  |
|   |          |                               | 40   | 9144383-383<br>9144384-384   | 145562673-682<br>54209459-498  |
|   |          |                               |      |                              |                                |
|   |          |                               | 3    | 9144384-384                  | 75907479-481                   |
|   |          |                               | 6    | 9144384-384                  | 142612395-400                  |
|   |          |                               | 1    | 9144384-384                  | 148543884-884                  |
|   |          |                               | 4    | 9144385-385                  | 51029583-586                   |
|   |          |                               | 37   | 9144385-385                  | 75907482-518                   |
|   |          |                               | 9    | 9144385-385                  | 148545501-509                  |
|   |          |                               | 1    | 9144386-386                  | 51029587-587                   |
|   |          |                               | 9    | 9144386-386                  | 67700559-567                   |
|   |          |                               | 40   | 9144386-386                  | 72236219-258                   |
|   |          |                               | 5    | 9144387-387                  | 17797056-060                   |
|   |          |                               | 7    | 9144387-387                  | 45235699-705                   |
|   |          |                               | 5    | 9144387-387                  | 50587308-312                   |
|   |          |                               | - 11 | 9144387-387                  | 67700568-578                   |
|   |          |                               | 10   | 9144387-387                  | 67700749-758                   |
|   |          |                               | 7    | 9144387-387                  | 138094233-239                  |
|   |          |                               | 5    | 9144387-387                  | 139785174-178                  |
|   |          |                               | 5    | 9144388-388                  | 51260613-617                   |
|   |          |                               | 20   | 9144388-388                  | 54700379-398                   |
|   |          |                               | 2    | 9144388-388                  | 88615923-924                   |
|   |          |                               | 15   | 9144388-388                  | 139785179-193                  |
|   |          |                               | 4    | 9144388-388                  | 140059362-365                  |
|   |          |                               | 4    | 9144388-388                  | 147310048-051                  |
|   |          |                               | 10   | 20020934-934                 | 256704331-340                  |
|   |          |                               | 10   | 20020934-934                 | 293047776-785                  |
|   |          |                               | 10   |                              | 293047766-775                  |
|   |          |                               |      | 20020936-936                 |                                |
|   |          |                               | 10   | 20020937-937                 | 293047756-765                  |
|   |          |                               | 40   | 56373763-763<br>56373763-763 | 58833859-898                   |
|   |          |                               | 10   | 303/3/63-/63                 | 66446439-448                   |
|   |          | Total                         | 1434 |                              |                                |
|   |          |                               |      |                              |                                |

The Public is hereby warned against purchasing or dealing with these securities any way. Any person(s) who has / have any claim in regard of the securities, should lodge such claim with the Company's Registrars and Transfer Agents viz. "KFin Technologies Limited" Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda Hyderabad - 500 032, within Seven (7) days from the date of publication of this notice failing which, the Company will proceed to issue letter(s) of confirmation in lieu of duplicate certificate(s) in respect of the aforesaid securities.

www.ril.com

Place: Mumbai

Date : August 5, 2022

for Reliance Industries Limited Savithri Parekh Company Secretary and Compliance Officer

Date: 5th August, 2022

Rajeev Parashai Date: 05.08.2022 Company Secretary

दूरभाष : 91 120 460 2424, फैक्स नं. : 91 120 3911 401

वेबसाइट : www.bagnetwork24.in, ई-मेल : info@bagnetwork.in 29वीं वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग तथा बुक क्लोजर जानकारी की सूचना रतद्वारा सूचना दी जाती है कि बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 29वं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 29 अगस्त, 2022 को शाम 4:30 बजे (भा.मा.स.) वीडियं कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जायेगी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मर्ड, 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और 02/2022 दिनांक 5 मई 2022 (सामूहिक रूप रं 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) ने वीसी/ओवीएएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करन की प्रक्रिया और तरीके निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी. 2021 और परिपत्र स सेबी/एचओ/डीडीएचएस/पी/सीआईआर/ 2022/0063 दिनांक 13 मई, 2022 ('सेबी परिपत्र') ने भी निर्धारित के अनुसार 29वीं एजीएम बुलाने की सूचना में व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए कुछ छूट

उक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की 29वीं एजीएम की सूचना और वित्तीर वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्टॉनिक प्रतियां 4 अगस्त, 2022 को उन सभी सदस्यों के पास भेज दी गई हैं, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। ये कंपनी की वेबसाइटwww.bagnetwork24.in, स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑप इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः <u>www.bseindia.com</u> और <u>www.nseindia.com</u> पर उपलब्

हैं और साथ ही एनएसडीएल की वेबसाइट <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी उपलब्ध हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ पठित इसके तहत बनाए गए नियमों और सेर्ब (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार, कंपर्न के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स उक्त एजीएम के लिए मंगलवार, 23 अगस्त, 2022 रं

सोमवार, 29 अगस्त, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और कंपनी (प्रबंधन औ प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनसार, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान किए गए इलेक्टॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई वोटिंग) का उपयोग करते हुए 29वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जा रही है। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार, 22 अगस्त, 202 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग और एनएसडीएल के वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए विस्तत प्रक्रिया एजीएम की सचना में प्रदान की गई है। सदस्यों से अनरोध है कि वे वीसी/ओएवीएम वे

माध्यम से ई-वोटिंग/एजीएम से संबंधित एजीएम की सूचना में वर्णित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है कि : . 29वीं एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों का लेन-देन एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म यार्न

www.evoting.nsdl.com के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 25 अगस्त, 2022 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.) से शुरू होगी और रविवार 28 अगस्त, 2022 को शाम 5:00 बजे (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी;

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि सोमवार, 22 अगस्त, 2022 है;

जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थ स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सहित एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयरों का अधिग्रह करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी सोमवार 22 अगस्त, 2022 को शेयर धारण करता है, evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईर्ड और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया ज सकता है:

एजीएम में वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग ह माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला था और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं किया गया है एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे सदस्य ध्यान दें कि:

(क) ई-वोटिंग के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद एनएसडीएल दारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्युल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और निर्दिष्ट अवधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित

(ख) एक बार सदस्यों द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उन्हें बाद में इसे बदलने की अनुमी नहीं दी जाएगी:

(ग) इलेक्टॉनिक वोटिंग की सविधा एजीएम में उन सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी जिन्हों रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है:

(घ) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्प(पों) पर अपना वोट डाला है, वं भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, लेकिन ऐसे प्रस्तावों पर दुबा अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

इस नोटिस में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लि उपलब्ध हैं। सदस्य ई-मेल के विषय में 'निरीक्षण के लिए अनरोध' लिखकर इस संबंध में कंपनी क info@bagnetwork.in पर लिख सकते हैं।

पास श्री राजीव पाराशर, कंपनी सचिव-बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड को, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय/कॉपोरेंट कार्यालय में info@bagnetwork.in पर ईमेल के माध्यम से संबोधित किया जा सकत है या दरभाषः +91 120 460 2424 पर कॉल करें।

मैसर्स बालिका शर्मा एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली (सदस्यता संख्या एफसीएस 4816 और सीओपी नंबर 3222) को एजीएम से पहले ई-वोटिंग प्रक्रिया के साथ-साथ एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संवीक्षा करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा संवीक्षव के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि आपके पास रिमोट ई-वोटिंग ( एजीएम से पहले और एजीएम के दौरान) से संबंधित कोई पश्न/शिकायत

है, तो आप <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड खण्ड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पछे जाने वाले प्रश्न ('एफएक्यू') और शेयरधारकों के लिए उपलब्ध Frequently Asked Questions ('FAQs') for Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders का संदर्भ रं सकते हैं या टोल-फ्री नंबरः 1800-222-990/1800 224 430 पर कॉल करें या <u>evoting@nsdl.co.ir</u> पर सश्री सोनी सिंह, सहायक प्रबंधक-एनएसडीएल से संपर्क करें। निदेशक मंडल के आदेशानुसा

कृते बी.ए.जी. फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड राजीव पाराश

एल&टी फाइनैंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 15वीं मंज़िल, पीएस सुजन टेक पार्व

प्लॉट नं. 52, ब्लॉक डीएन, सेक्टर त, सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता 700 091, ज़िला 24-परगनाज़ नॉर्थ।

CIN No.: U65910WB1993FLC060810

स्थानः नोएडा

दिनांक: 05.08.2022



**MUTHOOT SYNERGY NIDHI LIMITED** {Formerly Muthoot Synergy Fund Limited}

Registered Office: 205, Aurobindo Place, Hauz Khas, New Delhi - 110016 secdep@muthootgroup.com, CIN: U65991DL1994PLC148251

# NOTICE

Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting of the members of Muthoot Synergy Nidhi Limited (Formerly Muthoot Synergy Fund Limited) will be held on Monday the 29th of August 2022 at 02.00 P.M. at the registered office of the Company at 205, Aurobindo Place, Hauz Khas, New Delhi - 110016 to transact the business contained in the Notice convening the Annual General Meeting.

Annual Report for the financial year 2021-22 containing the Notice calling the Annual General Meeting, Directors Report, Auditors Report and Financial statements for the period ended 31st March 2022 is being displayed on the notice board at the Company's registered office.

A member entitled to attend, and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself.

For and on behalf of the Board New Delhi : 110016 Date: 4th August 2022

सार्वजनिक सूचना एतदद्वारा जनसाधारण को सूचना दी जाती

है कि मेरे पिता श्री हरी भूषण पिता श्री प्रेम लाल गुप्ता आवास एल-6/123 आशियाना आंगन भिवाड़ी, राजस्थान-301019 का गुरुग्राम, हरियाणा में दिनांक 27-06-2022 को स्वर्गवास हो गया है।

मृतक ने हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अधीन अपने पीछे निम्नलिखित वारिस छोड़ गए हैं, जिसका विवरण नीचे उल्लेखित

श्रीमती जिउनेश्वरी देवी. उम्र 94 वर्ष पति श्री प्रेम लाल गुप्ता आवास 1052 सेक्टर-31, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 (मृतक की माता)।

श्री मोहित गुप्ता, उम्र 42 वर्ष पिता स्वर्गीय श्री हरी भूषण आवास 1052, सेक्टर-31, गुरुग्राम, हरियाणा-122003 (मृतक का सुपुत्र)।

वृंकि मृतक ने अपने पीछे यहां ऊपर जिनका नाम उल्लेखित है उनके अलावा अन्य कोई भी वारिस छोड़े नहीं गए हैं।

हस्ताक्षर/ मोहित गुप्ता सिक्युरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल ॲसेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, 2002 (कानन) की धारा 13(2) के अंतर्गत सचना

|      | 7.14 41.761 \$ 5.7.6 \$40.5 £502 (41.7.7.7.10(2) 41.511.11 |   |            |                        |  |  |  |  |  |
|------|--|---|------------|------------------------|--|--|--|--|--|
| अनु. | कर्जदाता (ओं) का नाम                                       | गिरवी संपत्ति (यों) का विवरण              | एन.पी.ए.की | बकाया राशि             |  |  |  |  |  |
| क्र. | (Ū)  | (बी)                                      | तारीख (सी) | (रू.) (डी)             |  |  |  |  |  |
| 1    | कर्ज खाता क्र.   | प्लॉट नं. S-10, ब्लॉक -S, खसरा नं. 301/1, | 21.07.2022 | रू.37,54,120.87 /-     |  |  |  |  |  |
|      | HLLADPR00501962  | गाँव तिहार, अजय एनक्लेव, दिल्ली-110018,   |            | (रूपये सैंतीस लाख      |  |  |  |  |  |
|      | 1. अविनाश कुमार पुंजानि प्रॉपराइटर                         | ·   |            | चौवन हजार एक सौ बीस    |  |  |  |  |  |
|      | हनुमान प्लास्टिक इंडस्ट्रिज                                |   |            | और सत्तासी पैसे मात्र) |  |  |  |  |  |
|      | 2. मुकेश पुंजानि   |   |            | 21.07.2022 के अनुसार   |  |  |  |  |  |
|      | ३ महोल हाला एंजानि   |   |            |                        |  |  |  |  |  |

कि ऊपर लिखे नाम वाला उधार लेने वाला (ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम बिजनेस चय में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पानेवाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है।

उधार लेने वाले (लो) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले (लो) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियों (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक उधार लेनेवालो को अधिनियम की धारा 13(2)के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को द्रष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवन करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अधतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्को सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने/ उनके पूर्ण दायित्वोका निर्वहन करे, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपित को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप -धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार,'' कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सुचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयावधी के अंदर सरक्षित आस्ति को मोचन करनें में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपति का मोचन करने के लिए पात्र नही हो सकता ' सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13 (2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों

में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करनेसे प्रतिबंधित है

कृते इंडियाबुल्स कमर्शियल क्रेडिट लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी

SUNDARAM FINANCE GROUP Enduring values. New age thinking.

Sd/- Director



सहर्ष घोषित करते हैं कि हम दिनांक अगस्त 6, 2022 से अपनी **देहरादन शाखा** का निम्न लिखित पते पर स्थानांतरण कर रहे हैं

# सुंदरम् फायनान्स लिमिटेड

परिसर सं. 87, पहली मंज़िल, एम.आई.जी 1166, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, ओल्ड नेहरू कॉलोनी, धरमपुर, देहराद्न - 248 001, उत्तराखंड

www.sundaramfinance.in



श्री विकास शर्मा ब्राँच मेनेजर

98376 08845

• Commercial Vehicle Finance • Car Finance • Construction Equipment Finance • Farm Equipment Finance • Home Loans • Mutual Funds • Insurance

**L&T Financial Services** 

## फॉर्म नं. 3 विनियम —15(1)(ए) / 16(3) ऋण वसूली न्यायोधिकरण चंडीगढ़ (डीआरटी 2) पहली मंजिल एससीओ 33—34—35, सेक्टर—17ए चंडीगढ़ (3 व 4 मंजिल पर भी अतिरिक्त स्थान आवंटित) केस नं. ओए / 788 / 2021

ऋण वसूली न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 1993 के नियम 5 के उप—्नियम (2ए) के सा्थ पठित अधिनियम की धारा 19 की उप—धारा (4) के तहत सम्मन

एक्स. नं. 11325 केनरा बैंक

मैसर्स वरिंद्र ट्रेडिंग कंपनी श्री मुकेश गोयल

पुत्र श्री कृष्ण दास निवासी कसन रोड, मानेसर गुड़गांव, गुड़गांव, हरियाणा सम्मन

चंकि. ओए / 788 / 2021 **07.07.2022** को चूर्क, आए, 788, 2021 07,07,2022 की माननीय अध्यक्ष अधिकारी, रिजस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध था। चूंकि, यह माननीय न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19(4) के तहत उक्त आवेदन पर सम्मन/सूचना जारी की थी। परिशिष्ट किए गए दस्तावेजों की प्रतियां आदि सहित आवेदन रु. 92.74.299.80 (रुपए बयानवे लाख चौहत्तर हजार दो सौ निन्यानवे और अस्सी पैसे केवल) के ऋण की वसूली के लिए

अपित विकट्स (ओए) व ययर की है। अधिनियम की धारा 19 की उप–धारा (4) के अनुपालन में, प्रतिवादियों को निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं :-1) सम्मन की सेवा के तीस दिनों के भीतर कारण बताने के लिए क्यों आपको मांगी गई छुट नहीं दी जाए। 2) मूल आवेदन की क्रम सख्या 3ए के तहत

आवेदक द्वारा विशिष्ट संपर्तितयों परिसंपत्तियों के अलावा संपत्तियों या परिसंपत्तियों का विवरण प्रकट करने के लिए 3) आप संपत्तियों क संलग्न के लिए आवेदन के बकाया सुनवाई और निपटान, मूल आवेदन की क्रम संख्या ३ए के तहत प्रकट प्रतिभतित संपत्तियों के साथ डील या निपटान या ऐसे अन्य परिसंपत्तियों और संपत्तियों के साथ डील

करने से प्रतिबंधित हैं। 4) आप परिसंपत्तियों के उसके किसी व्यापार के साधारण कोर्स को छोड़कर बिक्री, लीज या अन्यथा द्वारा हस्तांतरण नहीं करेंगे जिस पर प्रतिभतित हित तैयार किया गया है और / या न्यायाधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना मूल आवेदन की क्रम संख्या 3ए के महत विशिष्ट या प्रकट की गई अन्य संपत्तियां और परिसंपत्तियां हैं।

5) आप ऐसी परिसंपत्तियों पर प्रतिभतित हित रखने वाले बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ बनाए गए खाते में ऐसी बिक्री प्रक्रियाओं जैसी और व्यापार के साधारण कोर्स प्रतिभवित संप्रतियों या अन्य प्ररिसंप्रतियों और नंपत्तियों की बिक्री द्वारा जारी बिक्री प्रक्रियाओं के लिए खाते के देययोग्य होंगे।

के लिए खात के दययाग्य हाग। आपको 22.09.22 को **सुबह 10.30 पर एजिस्ट्रार** के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए और आवेदन को तैयार करने की प्रति के साथ लिखित विवरण जुमा कराने का निर्देश दिया जाता है, असफल होने पर आवेदन की सुनवाई की जाएगी और आपकी अनुपरिधति में निर्णय लिया जाएगा। इस तिथि को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और मुहरबंद

स्था । ताथ चन । २ हू... केया गया : 29.07.2022 रजिस्ट्रार आई /ूसी डीआरटी—।।, चंडीगढ़

1309, संक्टर–19 बी

iडीगढ़—160036

किया

# BLS बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड

सीआईएन: L51909DL1983PLC016907

जी-4, बी-1, एक्सटेंशन, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 दूरभाष. नंबर: 011-45795002 फैक्स: 011-23755264 ईमेल: compliance@blsinternational.net, वेबसाइट : www.blsinternational.com





30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित समेकित और स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण समेकित वित्तीय परिणामः-(लाख रुपये में

| विवरण  | ,             | समाप्त तिमाही     |                 |                |  |
|--|---------------|-------------------|-----------------|----------------|--|
|  | 30 जून, 2022  | 31 मार्च,<br>2022 | 30 जून,<br>2021 | 31 मार्च, 2022 |  |
|  | >>            |                   |                 | ->             |  |
|  | अलेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित      | अलेखापरीक्षित   | लेखापरीक्षित   |  |
| प्रचालनों से कुल आय  | 27,282.45     | 25,384.26         | 17,853.03       | 84,988.97      |  |
| अवधि हेतु निवल लाभ (कर एवं अपवादित मदों से पूर्व)  | 3,241.41      | 3,726.09          | 2,080.39        | 11,395.85      |  |
| अवधि हेतु निवल लाभ (कर एवं अपवादित मदों के पश्चात)   | 3,070.06      | 3,520.22          | 2,025.10        | 11,120.28      |  |
| अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर<br>पश्चात) से निर्मित] | 2,614.57      | 3,874.85          | 2,534.60        | 12,121.36      |  |
| प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 1/- प्रत्येक का अंकित मूल्य)                                     | 2,049.01      | 1,024.50          | 1,024.50        | 1,024.50       |  |
| आय प्रति शेयर (ईपीएस) (वार्षिकीकृत नहीं)   |               |                   |                 |                |  |
| (क) बेसिक ईपीएस - रु.  | 1.49          | 3.45              | 1.98            | 10.86          |  |
| (ख) डाइल्यूटेड ईपीएस – रु.   | 1.49          | 3.45              | 1.98            | 10.86          |  |
| नोट :  |               |                   |                 |                |  |
| 1. प्रमुख स्टैण्डएलोन वित्तीय सूचना निम्न प्रकार है :  |               |                   | (               | लाख रुपये में) |  |

समाप्त वर्ष विवरण 30 जुन, 2022 31 मार्च. 31 मार्च, 202 30 जन. 2022 2021 लेखापरीक्षित 1,559,79 1,499,24 614.82 4.026.66

प्रचालनों से कुल आय अवधि हेतु निवल लाभ (कर एवं अपवादित मदों से पूर्व) 1,635.70 18.80 1,741.23 1,356.00 1,604.34 अवधि हेतु निवल लाभ (कर एवं अपवादित मदों के पश्चात) 1,258.69 13.36 1,611.50 अवधि हेर्तु कुल व्यापक आय [ अवधि हेतु लाभ ( कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय 17.86 (कर पश्चात) से निर्मित] बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति द्वारा उपरोक्त अंकेक्षित परिणामों की समीक्षा की गई है और 5 अगस्त, 2022 को आयोजित निदेशक मंडल क

बैठक में रिकॉर्ड में लिया गया है। कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ने सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), 2015 की अपेक्षाअं के अनुसार सीमित समीक्षा की है और संबंधित रिपोर्ट संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जा रही है।

तिमाही के दौरान, इस समूह ने जीरो मास प्राइवेट लिमिटेड के 88.71% इक्विटी शेयरों का अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बीएलएर ई सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 7 जून, 2022 को अधिग्रहण किया। 18 जून, 2022 से 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए लाभ और हानि तिमाही के परिणामों में शामिल है।

उपरोक्त सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल तिमाह और समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही और समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.nseindia.com , www.bseindia.com और www.msei.in) पर उपलब्ध हैं और कंपनी र्क वेबसाइट (www.blsinternational.com) पर होस्ट किए गये हैं।

कृते बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

निखिल गुप्त

प्रबंध निदेशव

द्रीआईएनः ००१९५६९४

दिनांक: 5 अगस्त, 2022

# कब्जा नोटिस [नियम 8 (1)]

जब कि सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंटूक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत एल&टी फायनांस लिमिटेड (पहले, एल&टी हाउसिंग फायनांस लि का विलय एनसीएलटी मुंबई तथा एनसीएलटी कोलकाता द्वारा मान्य एकीकरण द्वारा स्कीम ऑफ अमाल्गमेशन के तहत एल&टी फायनांस लि. के साथ 12 अप्रैल 2021 से प्रभावी तौर पर हो चुका है) और सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के (नियम 3) के साथ पढ़ते हुए उक्त कानून की धारा 13 (12) द्वारा प्रदत अधिकारों का उपयोग करते हुए उक्त सूचना की प्राप्ति के दिनांक से 60 दिन के अंदर नीचे सलग्न मांग सुचना में वर्णित राशि चुकाने के लिए कर्जदार/सह–कर्जदारों को मांग सुचना के दिनांक से भूगतान होने तक आगामी ब्याज और प्रभारों के साथ अदा करने का आवाहन किया जाता है. कर्जदार, रेहन रखनेवाले व्यक्ति, गारंटर ब्याज और अन्य प्रभारों के साथ मिलकर संपूर्ण सूचना की राशि चुकता करने में विफल रहने पर एतदद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर और जन सामान्य को सूचित

कंपनी सचिव

| ऋण खाता   | उधारकर्ता / ओं,  |  |        | माँग नोटिस   | . लिए गए कब्जे का<br>दिनांक और प्रकार |  |
|---|--|--|--------|--|---------------------------------------|--|
| संख्या  | सह–उधारकर्ता / ओं<br>और गारंटीदाताओं का नाम  | बंधक रखी गई संपत्तियों का विवरण  | दिनांक | बकाया राशि (₹)   |                                       |  |
| H016023112200<br>23917,<br>H016023112200<br>23917L,<br>H016023112200<br>43555 | <ol> <li>सन ऐग्रीफेश इंडस्ट्रीज<br/>प्राइवेट लिमिटेड (उसके<br/>निदेशक नीलेश कुमार सिंह<br/>के माध्यम से)</li> <li>नीलेश कुमार सिंह<br/>3. पंकज रानी</li> </ol> | सूमी – । इस पते पर स्थित संपत्ति का प्रत्येक भूखंड – पेंटहाउस – 01, 18वीं और 19वीं मंजिल, टॉवर ए, "पैन ओएसिस" सुपर एरिया 4925 स्क्रेयर फीट, प्लॉट नं. Gh – 001, सेक्टर 70, नॉइडा (उ.प्र.) 201301 सूमी –। । । । । । । । । । । । । । । । । । । | 2022   | 4,65,71,210.15/- (चार<br>करोड़ पैंसठ लाख इकहत्तर हजार दो<br>सौ दस रुपये पंद्रह पैसे मात्र)<br>दिनांक 06-04-2022 तक | 03.08.2022<br>प्रतीकात्मक आधिपत्य     |  |

उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं /गारंटीदाताओं को विशेष रूप से और आम जनता को सामान्यस रूप से एतददारा संपत्ति का सौदा न करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति का कोई भी सौदा माँग नोटिस की तिथि से भूगतान/वसूली तक अतिरिक्त ब्याज और अन्य शुल्कों के साथ माँग नोटिस में उल्लिखित राशि के लिए एल&टी फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: 06.08.2022 एल&टी फाइनेंस लिमिटेड के लिए

# टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड CIN: L33301DL1988PLC033434

पंजीकृत कार्यालयः ई-10, लोअर ग्राउंड फ्लोर, लाजपत नगर-III, नई दिल्ली-110024 दूरभाषः 91-120-4741300, ईमेलः investor.relations@timex.com, वेबसाइटः www.timexindia.com 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त ब्यौरा

(रुपये लाख में 31 मार्च 2022 को 30 जून 2022 को 30 जून 2021 को 31 मार्च, 2022 विवरण समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही को समाप्त वर्ष (अलेखा परीक्षित) (अलेखा परीक्षित) (अलेखा परीक्षित) (लेखा परीक्षित) परिचालन से कुल आय 9427 7909 3206 26446 अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट 1201 225 -528 322 तथा/अथवा असाधारण मद से पहले) कर पूर्व अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) 225 -528 1201 322 (विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मद के उपरांत) करोपरांत अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) 322 1201 225 -528 (विशिष्ट तथा/अथवा असाधारण मद के उपरांत) अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय 1201 210 -538 302 [अवधि के लिए (करोपरांत) लाभ/(हानि) तथा

### प्रति शेयर उपार्जन (रु. 1 प्रत्येक) बेसिक एवं डाईलूटेड ' वार्षिक लेखा नहीं टिप्पणी:

स्थान: नोएडा

तारीखः 04 अगस्त, 2022

इक्विटी शेयर पूंजी

अन्य विस्तृत आय (करोपरांत) सम्मिलित]

पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित तुलन पत्र में उल्लेखित

आरक्षित निधि (पूनर्मृल्यांकन आरक्षित निधि छोड़कर)

1. ऊपर उल्लेखित वित्तीय परिमाणों की लेखा परीक्षक कमिटी द्वारा समीक्षा की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा 4 अगस्त, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में इसे

1010

1.01\*

1010

0.05\*

ऊपर उल्लेखित वित्तीय परिणाम सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अधीन बीएसई लिमिटेड के पास दायर 30 जन, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तत प्रारूप का निष्कर्ष है। 30 जन, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का सम्पर्ण स्वरूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा कंपनी की वेबसाइट (www.timexindia.com) पर भी उपलब्ध है।

टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड

1010

-0.74\*

दीपक छाबरा डीआईएन: 01879706

1010

-0.39

भारतीय स्टेट बैक चल/अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई—नीलामी की सार्वजनिक सचना दिनांक 13.09.2022, को पर्वाह्न 11:00 बजे से अर्पाह्न 13:00 बजे तक।

फोन.: 0172-4568244, 4568249, ईमेल : sbi.05179@sbi.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना

बोलीदाता के वैश्विक ईएमडी वॉलेट में ईएमडी (ऑनलाइन)

ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम दिनांक अधिमानत : 12.09.2022 तक जमा की जानी है

प्रतिभूति हित् (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6(2) और 8(6) के उपबंधों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित

प्रवर्तने अधिनियम, 2022 के तहत चल/अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतद् द्वारा आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को प्रत्याभूत ऋणदाता को . गिरवी/प्रभारित रखा गया है, जिसका भारतीय स्टेट बैंक, प्रत्याभूत ऋणदाता के प्रोधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा किया गया है, को ''जो है **जहां है'', ''जो है जैसा है'' और ''वहां जो कुछ भी है आधार''** पर **भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी, चंडीगढ़** को उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) (नीचे उल्लेखित) से देय राशि (नीचे उल्लेखित) की वसूली के लिए 13.09.2022 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम राशि जमा का उल्लेख प्रत्येक संपत्ति के विरूद्ध किया गया है। बिक्री के

# नियमों और शर्तों के विवरण के लिए कृपया https://www.mstcecommerce.com/auctionhomelibapilindex.jsp में दिए गए लिंक को देखें। चल/अचल संपत्तियों का विवरण

|    | ,   |   |   |  |  |   |                                      |  |  |  |
|----|---|---|---|--|--|---|--------------------------------------|--|--|--|
| ī. | उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों),<br>शाखा का नाम                       | बकाया राशि  | संपत्ति/यों का विवरण  | संपर्क व्यक्ति का<br>नाम और संपर्क सं. | आरक्षित मूल्य<br>ईएमडी<br>बोली वृद्धि राशि | संपत्ति के<br>निरीक्षण की<br>दिनांक और<br>समय | ई/नीलामी<br>की<br>दिनांक/समय         |  |  |  |
|    | एसएआरबी, सेक्टर 7—सी,   |   | <b>लॉट—।</b> आवासीय प्लॉट सं. 11,                                       | सुश्री हरमनद्वीप कौर                   |  | লॉट–।   |                                      |  |  |  |
|    | चंडीगढ़   |   | धारक भूमि क्षेत्र 200.00 वर्ग गज,                                       | <b>मोबाइल सं.</b><br>7087421800        | रू. 45,55,000/−                            | 08.09.2022                                    | 13.09.2022                           |  |  |  |
|    | (1) मैसर्स बजाज एण्ड कंपनी,<br>पुरखाली रोड,पीएसपीसीएल           |   | खसरा सं. 31 में से स्थित ग्राम<br>सरदारपुर, तहसील दादरी, जिला           | श्री संजीव प्रकाश वर्मा,               | रु. 4,55,500/−                             | पूर्वीह्न 11 बजे<br>से अर्पीह्न 13            | पूर्वाह्न 11 बजे  <br>से अर्पाह्न 13 |  |  |  |
|    | कार्यालय के पास, वीपीओ  | 1,53,14,619/-   | गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-  | मोबाइल सं.                             | रू. 20,000/−                               | बजे तक  | बजे तक                               |  |  |  |
|    | रांगीलपुर, जिला रूपनगर,   |   | 201002 पंजीकृत द्वारा बिक्री  | 9779581961                             | 7  | ਜ਼ॉट–॥  |                                      |  |  |  |
|    | पंजाब–140001.<br><b>(2) श्री संजीव बजाज</b> पुत्र श्री          | 11.10.2021 से<br>शामिल ब्याज के साथ   | विलेख सं. 2396 दिनांकि  |  | रु. 22,50,000/−                            | 08.09.2022                                    | 13.09.2022                           |  |  |  |
|    | बरजिंदर कृष्ण बजाजा, निवासी                                     |   | 10.04.1989 को पंजीकृत और द्वार  | । पंजीकृत बिक्री विलेख                 | रु. 2,25,000/−                             | पूर्वाह्न 11 बजे<br>से अर्पाह्न 13            | पूर्वाह्न 11 बजे  <br>से अर्पाह्न 13 |  |  |  |
|    | मकान सं. 1309, सेक्टर—19 बी,                                    | से भविष्य का ब्याज और   | सं. 3479 दिनांक 22.08.1991 के<br>सेठ पत्नी श्री अरविंद कुमार सेठ के नाम | । पंजाकृत श्रामता सामा<br>। मौजद       | रू. 10,000/−                               | बजे तक  | बजे तक                               |  |  |  |
|    | 48116-100030  | अन्य प्रभारा साहत   |   |  |  |   |                                      |  |  |  |
|    | (3) श्रीमती पुनम बजाज पत्नी श्री<br>संजीव बजाज, निवासी मकान सं. | 10.00.2022 4/1  | (II 0 II  |  | गज खसरा सं. 31 में से स्थित                | 0 .   |                                      |  |  |  |
|    | 1   | ाज, निवासी मंकोन स.   प्रतिकात्मक कब्जा प्राप्त गौतम बद्ध नगर अनुर प्रदेश –201002 पंजीकत हारा उपहार विलेख सं 1274 दिनांक 23 02 2015 को पंजीकत श्रीमती |   |  |  |   |                                      |  |  |  |

**(४) श्रीमती सीमा सेठ** पत्नी अरविंद कुमार सेठ, निवासी मकान सं. 1309, सेक्टर—19 बी, चंडीगढ़—160036 (5) श्रीमती सीमा सेठ पत्नी अरविंद कुमार सेठ #7119 टॉटर्टिगटन ड्राइव, मिसइससागवा ऑनटारियो एल5एन7एस4, कनाडा (पासपोर्ट सं. एचसी 161153) (कैनेडियन हाई कमीशन, # 7/9, शांति खत, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली—110021 के माध्यम से )

पूनम बजाज पत्नी श्री संजीव बजाज के नाम मौजूद

# यह प्रकाशन उपर्युक्त उधारकर्ताओं और गारंटरों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 6(2) और 8(6) के तहत एक सूचना भी है।

गौतम बद्ध नगर. उत्तर प्रदेश–201002 पंजीकत द्वारा उपहार विलेख सं. 1274 दिनांक 23.02.2015 को पंजीकत श्रीमती

तथापि, उपर्युक्त संपत्ति के मापन को नीलामी में भाग लेने से पहले स्थल पर बोलीदाताओं द्वारा और राजस्व प्राधिकारियों के अभिलेखों से भी सत्यापित किया जाना चाहिए नियम और शर्तें :- ई-नीलामी बैंक के अनमोदित सेवा प्रदाता: मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से अपनी नीलामी साइट https://www.mstcecommerce. com/autionhome/ibapi/index.jsp के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ई—नीलामी ऑनलाइन ई—नीलामी बोली फॉर्म, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तों वाले निविदा दस्तावेज <u>https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp</u> में उपलब्ध हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को वेब पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp के माध्यम से अपना ईएमडी जमा करना होगा। (उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp के साथ नाम पंजीकृत करके नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है। पंजीकरण/लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेशन में **लगभग 2—3 कार्य दिवस** लग सकते हैं , इसलिए इस प्रक्रिया को समय पर अच्छी तरह से शुरू किया जा सकता है। ईएमडी एनईएफटी के माध्यम से **मैसर्स एमएसटीसी** लिमिटेड के साथ पंजीकृत बोलीदाता के अपने वॉलेट को इसकी नीलामी साइट पर देय होगा कृपया ध्यान दें कि ईएमडी को मैसर्स एमएसटीसी लिमिटेड के साथ पंजीकृत वॉलेट में

https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp के तहत निर्धारित नियमों / शर्तों के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी दिनांक: 05.08.2022 स्थान : चंडीगढ

अधिमानत: 12.09.2022 तक जमा किया जाना चाहिए। प्रत्याभत ऋणदाता के ज्ञान में संपत्ति पर कोई भार नहीं है। तथापि, इच्छूक बोलीदाताओं को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले नीलामी में रखी गई बाधाओं . संपत्ति के स्वामित्व और दावों /अधिकारों /संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अफनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई—नीलामी विज्ञापन का गठन और इसे बैंक की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन करने के लिए नहीं माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भार के साथ बेचा जा रहा है चाहे वह बैंक के लिए ज्ञात या अज्ञात हो। प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत ऋणदाता गलत मुद्रण त्रुटि या किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/देयों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। बिक्री